

प्रेस नोट दिनांक-05.12.2022

(1). दिनांक-05.12.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 05.12.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनांक 05.12.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदय द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनांक 05.12.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 72 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.रामराज 2. राजा पुत्रगण शिवनरेश निवासी परसौजा 3.रोहीत पुत्र शिवऔतार निवासी परसौजा थाना पहाड़ी 4. रामनारायण पुत्र स्व0 शिवऔतार निवासी खांचा पुरवा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 18-18-18-18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

72 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना पहाड़ी
2. आरक्षी नीलेश कुमार
3. आरक्षी विपिन कुमार

(5). आज दिनांक 05.12.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैया श्री चंद्रमणि पांडेय तथा उनकी टीम

द्वारा मु0नं0 3808/2016 धारा 26 वन अधिनियम के वारंटी अभियुक्तगण 1. टेकवा उर्फ संता पुत्र स्व0 दलसे कोल 2. रामआसरे पुत्र स्व0 दलसे कोल 3. भईयालाल पुत्र लालजी कोल निवासीगण बजहा कोलान मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4. कामता पुत्र स्व0 नत्थू चमार 5. शारदा पुत्र गरीबदास चमार निवासीगण ग्राम कहारनपुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय प्रभारी चौकी सैरैया
2. आरक्षी रोहित यादव
3. आरक्षी दुर्गेश कुमार
4. हो0गा0 जनार्दन प्रसाद शुक्ल

(6). आज दिनांक 05.12.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार सोनेपुर में नगर निकाय निर्वाचन एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में महोदय द्वारा समीक्षा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी न्यायिक वंदिता श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, जिला आबकारी अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, सम्बन्धित अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।